



गगनचुंबी इमारत की आग से सुरक्षा

गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले लोगों को सचेत रहने और आग लगने की स्थिति से निपटने को तैयार रहने की ज़रूरत होती है। यदि आप किसी गगनचुंबी इमारत में रहते हैं, तो आपको अपनी इमारत में आग से सुरक्षा संबंधी सुविधाओं की जानकारी, आवश्यक उपाय व आग लगने की स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने के तरीकों की जानकारी रखना आवश्यक है।

तैयार रहें

- अपनी इमारत की निकास योजना से अवगत रहें; इससे आपको सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता और कहाँ पर एकत्रित होना है यह पता चलेगा
- अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ इमारत की निकास योजना सीखें और इसका अभ्यास करें
- अपनी इमारत के फायर अलार्म की आवाज़ की पहचानना सीखें और इमारत की अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के काम करने का तरीका समझें
- अपना स्मोक अलार्म हर 10 वर्ष बाद बदलें। FRV 10-वर्ष की लिथियम बैटरी के साथ फोटोइलेक्ट्रिक स्मोक अलार्म का प्रयोग करने का सुझाव देता है
- टेस्ट बटन दबाकर हर महीने अपने स्मोक अलार्म की जांच करें और साल में एक बार अपने स्मोक अलार्म के कवर की सावधानीपूर्वक सफाई करें



आग लगने की स्थिति में क्या करें

- इमारत के फायर अलार्म से आग लगने की चेतावनी मिलने पर, तुरंत सावधान हो जाएँ और अपने साथ रहने वाले अन्य लोगों को सचेत करें
- यदि धुआँ हो, तो नीचे झुकेँ और इमारत से बाहर निकलते समय धुएँ से दूर रहें
- यदि ऐसा करना सुरक्षित हो, तो बाहर निकलते समय दरवाज़े बंद कर दें ताकि आग और धुएँ के फैलने की गति को कम किया जा सके
- बाहर निकलते समय रास्ते में अन्य लोगों को सचेत करें
- लिफ्ट का प्रयोग न करें। Exit संकेतों का अनुसरण करें और आग प्रतिरोधी सीढ़ियों का प्रयोग करें। बाहर निकलते समय फायर डोर बंद करें ताकि धुआँ और गर्मी सीढ़ियों तक न पहुँच पाएँ
- बाहर निकल जाने पर, अपनी इमारत की निकास योजना के अनुसार, एसेम्बली क्षेत्र में जाएँ
- जब आप सुरक्षित तरीके से एसेम्बली क्षेत्र में पहुँच जाएँ, तो 000 (ट्रिपल जीरो) पर फोन करें और फायर ब्रिगेड को बुलाएँ
- अग्निशमन सेवा द्वारा सुरक्षित घोषित करने तक इमारत में दोबारा न जाएँ
- यदि आप सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में असमर्थ हों, तो अपने अपार्टमेंट में ही रहें और दरवाज़े बंद कर लें ताकि धुआँ अंदर न जा पाए। 000 (ट्रिपल जीरो) पर फोन करें और निकासी हेतु सहायता मांगें


बालकनियों में अग्नि सुरक्षा

बालकनियों से बाहरी दीवारों और पास के अपार्टमेंटों में आग लगने की शुरूआत होने और इसके फैलने के खतरे को कम करने में मदद के लिए फायर रेस्क्यू विक्टोरिया (Fire Rescue Victoria, FRV) की ओर से महत्वपूर्ण सुरक्षा परामर्श।

अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और संपत्ति का नुकसान रोकने के लिए तुरंत निम्नलिखित कदम उठाएँ।



1. गैस बोटल हमेशा बाहर संभाल कर रखें, इन्हें सीधा रखें और गर्मी के स्रोतों से दूर रखें।
2. सिगड़ी का प्रयोग करते समय, बाहरी दीवारों, अन्य ज्वलनशील वस्तुओं, और विद्युतीय प्रज्वलन स्रोतों से 50 सेंटीमीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
3. धूम्रपान करने वालों को भारी, गहरी ऐशट्रे (शीशे, चीनी मिट्टी या धातु से बनी) का प्रयोग करना चाहिए ताकि सिगरेट की राख इससे बाहर न गिरे। सिगरेट को हमेशा पूरी तरह बुझाएँ।



4. बालकनियों से कूड़ा-करकट, अस्त-व्यस्त चीजें और ज्वलनशील वस्तुएँ हटाएँ और फर्नीचर बाहरी दीवारों से दूर रखें।
5. सामान, सामग्री और कपड़े एयर कंडीशनर युनिट से 1 मीटर की दूरी पर रखें।
6. ड्राइ पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर (शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक) अपने पास रखें। इसका प्रयोग केवल वहाँ करें जहाँ थोड़ी आग लगी हो और यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम महसूस करते हों।

आग से सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए, <http://www.frv.vic.gov.au> देखें।

गैस सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Energy Safe Victoria की वेबसाइट www.esv.vic.gov.au देखें

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा के लिए, 13 14 50 पर संपर्क करें



आग लगने की स्थिति में, 000 (ट्रिपल ज़ीरो) पर फोन करें